



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 28, गुरुवार, शाके 1941-सितम्बर 19, 2019
Bhadra 28, Thursday, Saka 1941-September 19, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur September 04, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/ 8716 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Vidyavihar has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Vidyavihar. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

कार्यालय नगर पालिका विद्या विहार

प्रपत्र - क

क्रं सं.	वार्ड सं०	विवरण
01	01	नगर पालिका विद्या विहार सीमा के उत्तरी-पश्चिमी कोने से पालिका की पश्चिमी सीमा के सहारे- सहारे दक्षिण की तरफ चलते हुए बांये हाथ की आबादी को शामिल करते हुए सरवागियों के कुँए को शामिल कर सीरी कैम्पस की दीवार के पास आकर उत्तर की तरफ चाँद सरावगी से घूमकर उत्तर दिशा में चलते हुए बांये हाथ की आबादी को शामिल करते हुए सीधे राजगढ़ रोड पर आकर ओम प्रकाश सैनी को शामिल कर उत्तर दिशा में चलकर श्रीमती सरिता देवी के मकान को शामिल करते हुए वापस पश्चिम में पालिका सीमा के सहारे- सहारे बांये हाथ की आबादी को शामिल कर मुख्य बिंदू तक।
02	02	श्री के. एस. शर्मा के मकान के सामने स्थित ट्रांसफोर्मर से पश्चिम की तरफ झेरली रोड पर चलते हुए सरहद मौजा झेरली पर पहुँच कर यहां से दक्षिण की तरफ सीमा रेखा पर चलते हुये खसरा न० 01 के दक्षिण पश्चिम कोने से खसरा न० 1,11,13,14,16 को शामिल करते हुये सीरी कैम्पस के दक्षिण पश्चिम कोने पर पहुच कर कैम्पस दीवार के उतर की तरफ चलते हुये सीरी के मुख्य भाग को शामिल करते हुये विवेक पथ पर

		आकर उत्तर में चलते हुये विक्रम सारा भाई मार्ग पर क्वाटर न० एफ - 29 से पूर्व की तरफ चलते हुये एफ-24 के पास सुन्दर कुंज रास्ते पर उत्तर में चलते हुये बाये हाथ की आबादी को शामिल कर वापस प्रारम्भिक बिंदु पर ।
03	03	घुमनसर रास्ते से बिट्स की दीवार के सहारे सहारे उत्तर में सीरी की दीवार की तरफ से पश्चिम में दीवार के सहारे-सहारे विद्या विहार सीमा तक व दक्षिण में घूमकर पालिका सीमा के मध्य घुमनसर रास्ते तक पूर्व में घुमनसर रास्ते से प्रारम्भिक बिंदु तक ।
04	04	सामुदायिक भवन से पूर्व में चलकर बिट्स की दीवार के सहारे-सहारे उत्तर में चलकर घुमनसर रास्ते-रास्ते पश्चिम में चलकर पालिका सीमा तक दक्षिण में सीमा के सहारे-सहारे महेश सोनी के मकान को दाहिने तरफ छोड़ते हुए बाये हाथ की आबादी को शामिल करते हुए प्रारम्भिक बिंदु तक।
05	05	क्वाटर न० 26/2 के उत्तरी - पश्चिम कोने से कैम्पस की दीवार के सहारे- सहारे दक्षिण में चलते हुये कैम्पस की दक्षिणी पश्चिमी कोने से पूर्व में घूमकर पश्चिमी दीवार के साथ - साथ चलते हुये डेरी क्वार्टर्स को पूर्व में छोड़ते हुये उत्तर में चलकर 219 डी के पास आकर उत्तर में चलते हुये बाये हाथ की समस्त आबादी को शामिल करते हुये शिशुविहार के उत्तरी - पश्चिमी कोने पर पहुचकर पश्चिम में चलते हुये मीरा भवन को शामिल करते हुये दक्षिण - पश्चिमी कोने से पश्चिम में चलते हुये पूजा ग्राउंड को शामिल कर वापस प्रारम्भिक बिंदु तक।
06	06	विद्यापीठ के उत्तरी - पश्चिमी कोने से दक्षिण में चलते हुए विद्यापीठ के स्टाफ क्वार्टर को शामिल कर विधापीठ के दक्षिण - पश्चिमी कोने से पूर्व में चलकर मीरा भवन को दाहिने छोड़ते हुये शिशु विहार के उत्तरी - पश्चिमी कोने से दक्षिण में चलकर क्वाटर न० 207 डी को छोड़कर कैम्पस बाउंड्री के सहारे - सहारे पूर्व की ओर चलते हुये एनसीसी क्वार्टर के पास सीढ़ियों के रास्ते कैम्पस एरिया में प्रवेश कर उत्तर में चलते हुये बाये हाथ की आबादी को शामिल करते हुये श्री वी पी बेरी के क्वार्टर के पास पश्चिमी की ओर मुड़कर बाये हाथ की आबादी को शामिल करते हुये डेयरी की सड़क पर पहुचकर उत्तर में एल्मुनियम होम को दाहिनी ओर छोड़ते हुये कोठी न० 1 को शामिल कर उत्तरी - पूर्वी कोने से पश्चिम में चलते हुये व्यास भवन के दक्षिणी - पश्चिमी कोने पर पहुचकर उत्तर की तरफ चल कर व्यास भवन को दाहिने छोड़ते हुये व्यास भवन के उत्तरी - पश्चिमी कोने से पूर्व की ओर चलकर पूर्वी - उत्तरी कोने पर आकर सड़क - सड़क उत्तर की चलते हुये बाये हाथ की आबादी को शामिल कर जिमनेजियम चौराहे पर पहुचकर जिमनेजियम के चौराहे की उत्तरी - पश्चिमी कोने से पश्चिम की ओर चलते हुये बाये हाथ की समस्त आबादी को शामिल करते हुये वापस प्रारम्भिक बिन्दु पर ।
07	07	म्यूजियम के पश्चिमी उत्तरी कोने से दक्षिण में चलकर कैम्पस की दीवार के सहारे - सहारे चलते हुये क्वाटर न० 61/1 के दक्षिणी - पश्चिमी कोने से पूर्व में चलते हुये पूजा ग्राउंड को दाहिनी ओर छोड़कर मीरा भवन की दीवार के सहारे - सहारे उत्तर में चलकर सामने विधापीठ की दीवार से पश्चिम में मुड़ते हुये विधापीठ के सहारे - सहारे बाये हाथ की आबादी को शामिल कर दक्षिणी - पूर्वी कोने पर पहुचकर पश्चिमी गेट से पूर्व में चलते हुये गांधी स्टेच्यु से डॉ० राजेंद्र प्रसाद की स्टेच्यु के पूर्व में चलते हुये राणा प्रताप

		भवन के उत्तरी - पश्चिमी कोने से दक्षिण में चलते हुये अशोक भवन के दक्षिणी पूर्वी कोने से उत्तर में सड़क के सहारे चलते हुये यूको बैंक के पश्चिम में पोस्ट ऑफिस को दाहिनी ओर छोड़ते हुये बाये हाथ की आबादी को टेलीफोन ऑफिस के पश्चिम कोने से की सीमा चलते हुये वापस कैम्पस की दीवार के सहारे - सहारे प्रारम्भिक बिन्दु पर।
8	08	राजगढ़ रोड़ पर औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिणी पश्चिमी कोने से दक्षिण में सड़क - सड़क चलकर झेरली रोड़ से पश्चिम में चलकर श्री एस के शर्मा के मकान के सामने से सीरी कैम्पस सुन्दर कुंज के रास्ते दक्षिण की तरफ चलते हुये विक्रम सारा भाई मार्ग पहुँचकर दक्षिण में चलकर सीधे सीरी की बाउंड्री पर आकार सीरी के दक्षिण गेट से बी.आई.टी.एस. लाइब्रेरी को पश्चिम में छोड़ते हुये टेलीफोन एक्सचेंज व पोस्ट ऑफिस को शामिल करते हुये बी.आई.टी.एस. की बाउंड्री होते हुये सीरी की पूर्वी दीवार के सहारे सहारे चलते हुये पूर्वी गेट से राजगढ़ रोड़ - रोड़ पश्चिम में चलकर वापस प्रारम्भिक बिन्दु पर।
09	09	नगरपालिका उत्तरी पश्चिमी सीमा राजगढ़ रोड़ से पालिका की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे दक्षिण में चलते हुये बाये हाथ आबादी को शामिल करते हुये झेरली रोड़ तक, झेरली रोड़ से रोड़-रोड़ चलते हुये रघुवीर सिंह के मकान को शामिल कर उत्तर दिशा में राजगढ़ रोड़ पर आकार राजगढ़ रोड़ से पश्चिम में प्रारम्भ बिन्दु पर।
10	10	झेरली रोड़ पर चांवाला के पुराने मकान से पूर्व में सीधे चलते हुए बी.टी.टी.आई. की दीवार के सहारे-सहारे पूर्व में चलते हुये बी.टी.टी.आई. के उत्तरी पूर्वी कोने से सीधे - सीधे उत्तर में रास्ते-रास्ते बनवारी खाती के मकान को दाहिने छोड़ते हुए पश्चिम में घूमकर सार्वजनिक कुंए तक से प्रारम्भिक बिंदु तक।
11	11	राजगढ़ रोड़ बनवारी खाती को शामिल कर दक्षिण में सीधे बी.टी.टी.आई. की दीवार तक दीवार-दीवार पूर्व में चलते हुए बी.टी.टी.आई. के उत्तरी पूर्वी कोने से सीधे दक्षिण में रोड़ पर पहुँचकर पूर्व में सड़क-सड़क चलते हुए त्रिवेणी प्याऊ तक बाहें हाथ की आबादी को शामिल करते हुए त्रिवेणी प्याऊ से उत्तर में राजगढ़ रोड़ चलते हुए प्रारम्भिक बिन्दु तक।
12	12	सीरी के दक्षिणी मुख्य द्वार से पूर्व में सड़क - सड़क चलते हुए दक्षिण में सड़क-सड़क चलकर श्री हवा सिंह राहड के मकान से घूमकर सड़क - सड़क चलकर श्री रविकान्त के मकान से दक्षिण में सड़क-सड़क चलकर राजपूत छात्रावास से पूर्व में घूमकर सड़क-सड़क चलकर शेखावाटी ग्रामीण बैंक के आगे से सड़क-सड़क चलकर कैम्पस के मुख्य द्वार पर पहुँच कर चुंगी न० 02 पर आकर उत्तर की ओर राजगढ़ रोड़ चलते हुए प्रभु मीणा की दुकान से पश्चिम की ओर चलते हुए श्री किशन सिंह सूबेदार के मकान के दक्षिणी पूर्वी कोने पर पहुँच कर उत्तर में सड़क सड़क चलते हुए बाये हाथ की आबादी को शामिल करते हुए लक्ष्मीनारायण मंदिर को दाहिनी ओर छोड़ते हुए मंदिर के सामने सीवरेज प्लांट को शामिल करते हुए सीवरेज प्लांट की बाउंड्री पर चलते हुए सीरी रोड़ पर आकर पश्चिम में चलकर सीरी के पूर्वी मुख्य द्वार पर आकर दक्षिण में घूमकर वापस प्रारम्भिक बिन्दु पर।

13	13	सीवरेज प्लान्ट के उत्तरी पूर्वी कोने से त्रिवेणी प्याऊ पहुँच कर दक्षिण में चलते हुए बाये हाथ की आबादी को शामिल करते हुए वैध हाईवेयर के दक्षिणी पूर्वी कोने पर पहुँचकर पश्चिम में चलते हुए अमीलाल चौधरी के पश्चिमी उत्तरी कोने पर पहुँचकर केशरदेव अग्रवाल के दक्षिणी पश्चिमी कोने से पश्चिम में चलकर मनीराम कादयान के दक्षिणी पश्चिमी कोने से प्रारम्भिक बिन्दू तक व राजपूत छात्रावास, सूरजमल स्वामी व महावीर स्वामी को शामिल करते हुए वापस प्रारम्भिक बिन्दू पर।
14	14	विद्या विहार कैंपस के पूर्वी गेट से पश्चिम में चलते हुए अशोक भवन के दक्षिणी-पश्चिमी कोने से उत्तर में चलते हुए वर्कशॉप के दक्षिणी-पश्चिमी कोने पर पहुँचकर दाये हाथ की आबादी को छोड़कर पश्चिम में चलकर डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद की स्टेच्यु से दक्षिण में चलकर गाँधी स्टेच्यु के पास आकर पूर्व में चलते हुए जीम के पश्चिमी-उत्तरी कोने से दक्षिण में चलकर मेडिकल सेंटर के उत्तरी-पश्चिमी कोने से पूर्व में चलते हुए डॉक्टर पारीक के क्वार्टर के पास से उत्तर में चलते हुए क्वार्टर बी-71 के उत्तरी - पश्चिमी कोने से पूर्व में कैंपस की दीवार के सहारे- सहारे चलते हुए बांये हाथ की आबादी को शामिल कर दीवार के सहारे सहारे प्रारम्भिक बिन्दू पर।
15	15	शंकर भवन के पश्चिमी उत्तरी कोने से दक्षिण में चलते हुए व्यास भवन को शामिल कर मेडिकल सेंटर के उत्तरी- पश्चिमी कोने से दक्षिण में चलकर बांये हाथ की आबादी को शामिल करते हुए बहार पुलिया पर से होते हुए एल्युमीनियम होम को शामिल करते हुए श्री रोशन लाल के क्वार्टर के दक्षिणी- पश्चिमी कोने से पूर्व की ओर चलते हुए बांये हाथ की आबादी को शामिल करते हुए ताराचंद के क्वार्टर के पास पहुँच कर दक्षिण की ओर कैंपस की दीवार पर पहुँच कर पूर्व में चलते हुए दक्षिणी पूर्वी कोने से दीवार के सहारे-सहारे श्री ख्याली शर्मा के मकान से पश्चिम में चलकर डॉक्टर के क्वार्टर से होते हुए मेडिकल सेंटर के कोने से उत्तर में चलते हुए जीम के उत्तरी- पश्चिमी कोने से पश्चिम में वापस प्रारम्भिक बिन्दू पर ।
16	16	शनि मंदिर से बांये हाथ की आबादी को शामिल करते हुए पश्चिम में महेश सोनी के मकान को शामिल कर विद्या विहार की सीमा के सहारे - सहारे दक्षिण में राजस्व ग्राम हनुमन्तपुरा की सीमा के सहारे सहारे पूर्व में वापस मैन सड़क पर आकर पश्चिम में वापस प्रारम्भिक बिन्दू तक
17	17	बीड़ के उत्तरी पश्चिमी कोने से खेड़ला का बास जाने वाले सड़क पर चलते हुए श्री ख्यालीराम को शामिल करते हुए कैंपस के दक्षिणी पश्चिमी कोने से पूर्व में पातालपुरी कृषि फॉर्म की सीमा के सहारे सहारे चलते हुए जैश नाई की प्याऊ को शामिल करते हुए सड़क के उत्तर में चलते हुए चंद्र भवन कोठी के दक्षिणी पूर्व कोने पर आकर चंद्र भवन कोठी की बाँउंड्री के साथ-साथ पश्चिम में चलते हुए चंद्र भवन कोठी को दाहिने छोड़ते हुए उत्तर में चलकर चंद्र भवन कोठी के उत्तरी पश्चिमी कोने से पश्चिम में चलते हुए बिरला सार्वजनिक अस्पताल के दक्षिणी पश्चिमी कोने से उत्तर में चलते हुए बांये हाथ की आबादी को शामिल करते हुए बिरला सार्वजनिक अस्पताल के उत्तरी गेट से उत्तर में चलते हुए बेडवाल अस्पताल में उत्तरी पूर्वी कोने से पश्चिम में चलते हुए नई सड़क पर आकर उत्तर में चलते हुए बिरला हॉस्टल के पूर्वी उत्तरी कोने से पश्चिम में चलते हुए

		आइस फैक्ट्री से संस्कृत कॉलेज के उत्तरी पश्चिमी कोने से पश्चिम में सीधे विकट्री गैस ओफिस के सामने सर्किल से पश्चिम में सड़क-सड़क चलते हुए हरिजन गेट के उत्तर में कैम्पस की दीवार के सहारे-सहारे चलते हुए राजपूत हॉस्टल को दाहिने छोड़ते हुए यूको बैंक के पूर्वी उत्तरी कोने से पश्चिम में चलते हुए यूको बैंक को शामिल करते हुए दक्षिण में चलते हुए मुख्य सड़क पर आकर हरिजन गेट से निकल कर वापस प्रारम्भिक बिंदू तक।
18	18	पिलानी सीमा को छोड़ते हुए महादेवी सिंधी नेत्र चिकित्सालय को शामिल करते हुए पूर्व में पिलानी सीमा को छोड़ते हुए जैस नाई की प्याऊ से होते हुए बांये हाथ की आबादी को शामिल हुए डाडा पेट्रोल पंप को शामिल करते हुए चंद्रभवन कोठी के पास से प्रारम्भिक बिंदू तक।
19	19	बिरला हॉस्टल से दक्षिण के तरफ चलकर बिरला सार्वजनिक अस्पताल के दक्षिण पश्चिम कोने को शामिल करते हुए पेट्रोल पम्प से मुख्य सड़क के सहारे-सहारे भगत सिंह सर्किल को शामिल कर पिलानी नगर पालिका की सीमा के सहारे-सहारे प्रारम्भिक बिन्दू तक।
20	20	भगत सिंह सर्किल से पूर्व में चलते हुए बिरला पब्लिक स्कूल गेट के अंदर चलकर बने हुए मकानात एवं स्कूल मय हॉस्टल, खेल मैदान आदि को शामिल कर पुनः भगत सिंह सर्किल प्रारम्भिक बिंदू पर।
21	21	गोयनका हवेली के उत्तरी पश्चिमी कोने से दक्षिण में चलकर बांये हाथ की आबादी को शामिल कर पंचवटी को दाहिने छोड़ते हुए पूर्व में चलते हुए भगत सिंह सर्किल रोड़ पर चलते हुए बांये हाथ की आबादी नगर पालिका पिलानी की सीमा तक के मकानात शामिल करते हुए उत्तर में भगत सिंह सर्किल पर आकर पश्चिम में नगर पालिका पिलानी की सीमा के सहारे-सहारे जालू वाला कुआं के पास आकर उत्तर में चलकर नगर पालिका पिलानी की सीमा को छोड़कर बिरला गेस्ट हाउस व साबू आदि को शामिल कर व बांये हाथ की आबादी को शामिल कर खददर स्कूल को शामिल कर पश्चिम दिशा में घूमकर पाडिया स्कूल को शामिल कर नगर पालिका की सीमा के सहारे- सहारे बांये हाथ की आबादी को शामिल कर वापस प्रारम्भिक बिंदू तक।
22	22	सुभाष कपूर के मकान से दक्षिण में चलकर दुर्गा मंदिर को शामिल कर जखोडिया पार्टी से नगर पालिका पिलानी की सीमा के सहारे- सहारे उत्तर में चलकर घनश्याम गढ़वाल के मकान तक एवं उक्त मकान को शामिल कर दक्षिण में चिरंजीलाल के मकान को शामिल करते हुए प्रारम्भिक बिंदू तक।
23	23	पूजा धर्म कांटे से दक्षिण पूर्वी कोने से उत्तर दिशा में सुनील पांडे के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम में घूमकर राजगढ़ रोड़ पर आकर उत्तर में घूमकर बजरंग टेलर से पिलानी सीमा के सहारे-सहारे उत्तर में चलते हुए त्रिवेणी प्याऊ तक एवं वापस राजगढ़ रोड़ पर दक्षिण में चलकर वार्ड संख्या 13 की सीमा के सहारे-सहारे निवास खाती के नोहरे को शामिल कर पश्चिम में मुड़कर प्रेम सिंह के मकान को शामिल कर दक्षिण में केशर देव के मकान को शामिल कर पूर्व में मुड़कर बस स्टैंड को शामिल कर प्रारम्भिक बिंदू तक।
24	24	नगर पालिका की उत्तरी सीमा से महिपाल सूबेदार के मकान से दक्षिण में चलते हुए

		राजगढ़ रोड़ पर पहुँचकर पूर्व में चलते हुए बांये हाथ की आबादी को शामिल करते हुए राजगढ़ रोड़-रोड़ त्रिवेणी प्याऊ, त्रिवेणी प्याऊ से नगर पालिका सीमा के सहारे-सहारे उत्तर में चलते हुए सीमा-सीमा पश्चिम में मुड़कर चलते हुए बांये हाथ की आबादी बिजली बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र को शामिल करते हुए प्रारम्भिक बिंदू तक।
25	25	सत्यवान मास्टर के घर से राजगढ़ रोड़ से होते हुए पश्चिम सीमा की तरफ नगर पालिका सीमा तक दांये हाथ की आबादी को शामिल करते हुए पूर्व की तरफ श्याम जी मास्टर के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण में प्रारम्भिक बिंदू तक।

अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका विद्याविहार

—————
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।